



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 27 मार्च, 2021

चैत्र 6, 1943 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

पी०सी०एफ० भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

संख्या 86/रा०नि०आ०-3/न०नि०/04-20टी०सी०-2021

लखनऊ, 27 मार्च, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग के पत्र संख्या 518/9-1-21-104 निर्वा०/17, दिनांक 04-02-2021 द्वारा दिये गये परामर्श के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 13छ के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के रिक्त सदस्य के स्थानों/पदों (यदि मा० न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों) पर उप निर्वाचन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ :-

नाम निर्देशन पत्रों के क्रय एवं जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	अभ्यर्थन वापसी का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
31 मार्च, 2021 से 01 अप्रैल, 2021 एवं 03 अप्रैल, 2021 से 06 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	07 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	09 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	10 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	04 मई, 2021 (प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक)	06 मई, 2021 (प्रातः 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2-उपर्युक्त संदर्भित उप निर्वाचन के लिए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) दिनांक 30 मार्च, 2021 को सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि सरकारी गजट में प्रकाशित करने के लिए तथा एक प्रतिलिपि आयोग को उसी दिन भेजेंगे। तत्क्रम में रिटर्निंग अधिकारी सम्बन्धित नगरीय निकाय के वार्ड के उप निर्वाचन की सार्वजनिक नोटिस दिनांक 31 मार्च, 2021 को जारी करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को भेजेंगे।

3—जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) तथा उनके द्वारा पदाभिहित किए गए सम्बन्धित स्थान/पद के रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी उक्त कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार कराएंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय तथा सम्बन्धित नगरीय निकायों के मुख्यालय के सूचना-पट्ट पर भी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चिपकवा कर प्रदर्शित कराएंगे।

4—नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने, नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थन वापस लेने, प्रतीक आवंटन एवं मतगणना की कार्यवाही सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय के नगरीय निकायों की जिला मुख्यालय पर तथा शेष नगरीय निकायों की सम्बन्धित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जाएगी।

5—यह उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा।

6—उपर्युक्त समय-सारिणी के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सभी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

7—वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक—सूची।

आज्ञा से,
मनोज कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 86/रा0नि0आ0-3/न0नि0/04-20टी0सी0/2021, दिनांक 27 मार्च, 2021 का संलग्नक

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	पद	वार्ड संख्या
01	सीतापुर	नगर पालिका परिषद्, खैराबाद	सदस्य	02
02	बांदा	नगर पालिका परिषद्, अतर्रा	सदस्य	10
03	लखीमपुर खीरी	नगर पालिका परिषद्, पलियांकलां	सदस्य	23
04	कानपुर नगर	नगर पालिका परिषद्, घाटमपुर	सदस्य	21
05	हरदोई	नगर पालिका परिषद्, पिहानी	सदस्य	12
06	हरदोई	नगर पालिका परिषद्, पिहानी	सदस्य	13
07	हरदोई	नगर पालिका परिषद्, हरदोई	सदस्य	10
08	बुलन्दशहर	नगर पालिका परिषद्, गुलावटी	सदस्य	03
09	बुलन्दशहर	नगर पंचायत, नरौरा	सदस्य	02
10	शाहजहांपुर	नगर पंचायत, कटरा	सदस्य	12
11	बिजनौर	नगर पंचायत, झालू	सदस्य	05
12	संत कबीरनगर	नगर पंचायत, मगहर	सदस्य	06
13	आजमगढ़	नगर पंचायत, जीयनपुर	सदस्य	08
14	सहारनपुर	नगर पंचायत, चिलकाना	सदस्य	07
15	मऊ	नगर पंचायत, मुहम्मदाबाद गोहना	सदस्य	16
16	मेरठ	नगर पंचायत, फलावदा	सदस्य	02
17	बाराबंकी	नगर पंचायत, दरियाबाद	सदस्य	09
18	भदोही	नगर पंचायत, घोसियाँ	सदस्य	10
19	महराजगंज	नगर पंचायत, घुघली	सदस्य	10
20	महराजगंज	नगर पंचायत, निचलौल	सदस्य	11
21	कानपुर नगर	नगर पंचायत, शिवराजपुर	सदस्य	02
22	रायबरेली	नगर पंचायत, परशदेपुर	सदस्य	06

वेद प्रकाश वर्मा,
अपर निर्वाचन आयुक्त।